

राइस फोर्टफिकेशन

प्रलिस के लयः

राइस फोर्टफिकेशन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), विश्व स्वास्थ्य संगठन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नैनो टेक्नोलॉजी

मेन्स के लयः

चावल के आयरन फोर्टफिकेशन के लाभ, चावल के आयरन फोर्टफिकेशन से जुड़े जोखिम

चर्चा में क्यों?

आयरन फोर्टीफाइड राइस/चावल के वितरण की आलोचना के जवाब में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर आयरन फोर्टीफाइड चावल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारजि कर दिया है।

राइस फोर्टफिकेशन:

परचयः

- फोर्टफिकेशन खाद्य उत्पादों में पोषक तत्त्वों को मशरति करने की प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं या अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के मशरण के साथ चावल के दानों को लेप करके या सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से समृद्ध चावल का उत्पादन करके और फिर नियमि चावल के साथ मशरति कर राइस फोर्टफिकेशन (चावल का फोर्टफिकेशन) किया जा सकता है।
 - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टफाइड चावल में आयरन (28 mg-42.5 mg), फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और वटामिन B-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होना चाहिये।

उद्देश्यः

- भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक पाया गया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, देश में प्रत्येक दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है और प्रत्येक तीसरा बच्चा नाटा है।
- चावल प्रोटीन का एक स्रोत है और इसमें वभिनिन वटामिन होते हैं। मलिंग और पॉलशिंग के दौरान वटामिन E, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज़ सहित कुछ पोषक तत्त्व कम हो जाते हैं (जसि प्रक्रिया से ब्राउन राइस सफेद या पॉलशि कथि हुए चावल बन जाते हैं)।
 - चावल दुनिया में, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से खाए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है।
 - भारत में प्रतिव्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रतिमाह है। इसलिये चावल को सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ पुष्ट करना गरीबों के आहार को पूरा करने का एक विकल्प है।
- आयरन की कमी भी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो विश्व स्तर पर दो अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करती है, इससे एनीमिया, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सुस्ती तथा मातृ मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है।
 - इस समस्या का समाधान करने के लिये कुछ देशों ने चावल को आयरन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, जैसे फोलिक एसिड और वटामिन B12 से पुष्ट करने की रणनीति अपनाई है।
 - हमें अधिकांश आयरन मांस से मलित है, जो हमारे शरीर द्वारा 50% अवशोषित हो जाता है। सब्जियों के माध्यम से सीमिति सेवन और केवल 3% अवशोषण होता है। यही कारण है कि आयरन की कमी भारत में एक बड़ी समस्या है।

वटामिन B12:

- वटामिन B12, जसि सायनोकोबलामिन के रूप में भी जाना जाता है, अधिकांश बैक्टीरिया और शैवाल द्वारा एंजाइम की मदद से संश्लेषित किया जाता है।
 - यह सूक्ष्मजीवों में संश्लेषित होता है जो पशु मूल के भोजन में समावेश के माध्यम से मानव खाद्य शृंखला में प्रवेश करते हैं।

- ये मसूतषिक और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिये भी महत्वपूर्ण हैं।
- लौह (Iron) की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फोलेट (Folate), वटामिन बी 12 और वटामिन ए की कमी, दीर्घकालिक सूजन और जलन, परजीवी संक्रमण और आनुवंशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती इत्यादि समस्याएँ होती हैं।
- वटामिन B12 की कमी से घातक रक्ताल्पता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका कारण ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। घातक रक्ताल्पता में कुअवशोषण वटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक आंतरिक कारकों की कमी या हानि के कारण होता है।

फोलिक एसिड

- फोलेट वटामिन B9 का प्राकृतिक रूप है जो जल में घुलनशील और कई खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इसे खाद्य पदार्थों में भी शामिल किया जाता है तथा फोलिक एसिड के पूरक के रूप में बिक्री की जाती है।
- गर्भधारण अवधि में गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड लेने की ज़रूरत होती है।
 - गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से बच्चे स्पाइना बफिडा जैसे न्यूरोल ट्यूब दोष से ग्रसति हो जाते हैं।
 - स्पाइना बफिडा एक ऐसी स्थिति है जो रीढ़ को प्रभावित करती है तथा सामान्यतः जन्म के समय स्पष्ट होती है।
 - भारत (पंजाब और हरियाणा में प्रति 1000 में 4.7 से 9 तक) और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों में न्यूरोल ट्यूब दोष के सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं।
 - वकिसति राष्ट्रों में यह 1 प्रति 1000 से भी कम है।

चावल में आयरन फोर्टफिकेशन के लाभ:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WORLD HEALTH ORGANIZATION) के अनुसार, सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ राइस फोर्टफिकेशन, चावल का न्यिमति रूप से सेवन करने वाली आबादी के पोषण की स्थिति और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिये एक प्रभावी, सरल और सस्ती रणनीति हो सकती है। चावल में आयरन फोर्टफिकेशन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
- बेहतर संज्ञानात्मक विकास: आयरन मसूतषिक के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - इष्टतम संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमताओं के लिये प्रारंभिक बचपन के दौरान पर्याप्त आयरन का सेवन आवश्यक है।
 - आयरन के साथ चावल का फोर्टफिकेशन करके, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ चावल एक प्राथमिक प्रधान आहार है, आयरन की कमी के कारण होने वाली संज्ञानात्मक हानि को रोका जा सकता है जिससे संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार और बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
 - बेहतर मातृ और शिशु स्वास्थ्य: जो गर्भवती महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, यह उनकी गर्भावस्था की अवधि और प्रसव के दौरान जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि कर सकता है।
 - चावल का आयरन फोर्टफिकेशन गर्भवती महिलाओं की आयरन स्थिति में सुधार करने में सहायता कर सकता है, मातृ एनीमिया और संबंधित जोखिमों को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आयरन का सेवन भ्रूण के विकास के लिये आवश्यक है और स्वस्थ जन्म परिणामों की वृद्धि में योगदान कर सकता है।

चावल के आयरन फोर्टफिकेशन संबंधी जोखिम:

- प्रभावहीनता की संभावना:
 - यह सभी व्यक्तियों विशेषतः आयरन की उच्च आवश्यकताओं या कम जैव उपलब्धता वाले लोगों की आयरन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है।
 - आयरन की जैव उपलब्धता शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग किये जाने वाले आयरन के अनुपात को संदर्भित करती है जो कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे- फोर्टफिकेशन के लिये उपयोग किये जाने वाले आयरन के यौगिक का प्रकार एवं मात्रा, आहार में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने वाले या अवरोधकों की उपस्थिति, तथा व्यक्तिकी शारीरिक स्थिति और आनुवंशिक भिन्नता।
- संवेदनशील व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव:
 - यह आयरन का अधिक सेवन या संचय करने वाले व्यक्तियों में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अतिरिक्त आयरन शरीर के लिये विषाक्त हो सकता है और यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सूजन, अंग क्षति एवं संक्रमण तथा पुरानी बीमारियों के बढ़ते जोखिम का कारण बन सकता है।
 - कुछ समूह जो कि आनुवंशिक विकार जैसे- हेमोक्रोमेटोसिस या थैलेसीमिया, यकृत रोग या संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस या मलेरिया से पीड़ित हैं और वे जो फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों या पूरक आहार के अन्य स्रोतों का सेवन करते हैं, उन्हें अतिरिक्त आयरन के सेवन या संचय से जोखिम हो सकता है।
- बाधाएँ:
 - इसके कार्यान्वयन में तकनीकी, वनियामक या सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
 - तकनीकी बाधाओं में फोर्टिफाइड चावल उत्पादों की गुणवत्ता, सथरिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
 - वनियामक बाधाओं में फोर्टफिकेशन के लिये मानकों, दशिया-नरिदेशों और नगिरानी प्रणालियों को स्थापित करना और लागू करना शामिल है।
 - सामाजिक बाधाओं में उपभोक्ताओं और हतिधारकों के बीच फोर्टिफाइड चावल उत्पादों की स्वीकार्यता, सामर्थ्य और

पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।

आगे की राह

- **नैनो-प्रौद्योगिकी का वसितार:** आयरन के कणों को कूटबद्ध करने और उनकी जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिये **नैनो-प्रौद्योगिकी** के उपयोग का पता लगाने की आवश्यकता है।
 - लोहे के अवशोषण को बढ़ावा देने हेतु नैनो कणों की घुलनशीलता में सुधार किया जा सकता है और चावल में पाए जाने वाले अवरोधकों के साथ अंतःक्रिया से बचा जा सकता है।
- **बायोफोर्टफिकेशन के साथ आयरन फोर्टफिकेशन का सम्मिश्रण:** **बायोफोर्टफिकेशन रणनीतियों** के साथ आयरन फोर्टफिकेशन को संयोजित करने की आवश्यकता है।
 - बायोफोर्टफिकेशन में पारंपरिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से आयरन सहित उच्च पोषक तत्त्वों वाली फसलों का संकरण शामिल है।
 - आयरन फोर्टफिकेशन और बायोफोर्टफिकेशन को एकीकृत करके चावल की ऐसी कस्मिमें विकसित करना जो प्राकृतिक रूप से आयरन से समृद्ध हों।
- **सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी:** आयरन फोर्टफिकेशन गतिविधियों को बढ़ावा देने और वसितार करने हेतु सरकारों, अनुसंधान संस्थानों, वाणज्यिक क्षेत्र के संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
 - ये साझेदारियाँ आयरन-फोर्टफाइड चावल हेतु नवीन तकनीकों, वित्तपोषण तंत्र और वितरण नेटवर्क के विकास की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- **नरिंतर अनुसंधान और विकास:** नई तकनीकों, सूत्रीकरण विधियों और फोर्टफिकेशन तकनीकों का पता लगाने हेतु अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 - सुधार और नवाचार हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के लिये नियमित रूप से आयरन फोर्टफिकेशन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।

[स्रोत: द द्रिष्टि](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fortification-of-rice-2>

